

26 अप्रैल: 'विश्व बौद्धिक संपदा दिवस'

- 26 अप्रैल, 2016 को **विश्व बौद्धिक संपदा दिवस** मनाया गया। इस दिवस को मनाये जाने का उद्देश्य बौद्धिक संपदा के अधिकारों (पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट, इत्यादि) के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
- 2018 विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का विषय **डिजिटल रचनात्मकता: संस्कृति की पुनर्कल्पना** है।

राज्यसमाचार

मणिपुर

मणिपुर का शिरुई लिली फेस्टिवल शुरू हुआ

- मणिपुर के पांच दिवसीय **शिरुई लिली स्टेट फेस्टिवल** की शुरुआत 24 अप्रैल को हुई। इस त्यौहार का उद्देश्य पहाड़ी जिले को एक संभावित पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के साथ साथ लुप्तप्राय राजकीय फूल 'शिरुई लिली' के बारे में जागरूकता फैलाना और इसे संरक्षित करना है।

नई दिल्ली

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान - 2 शुरू किया

- **उन्नत भारत अभियान** के तहत देश भर से 750 उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र गांवों को गाँड लेंगे और वहाँ की यात्रा करेंगे।
- इस योजना के तहत, संस्थानों को एक चुनौती मोड पर चुना गया है और इसे 750 प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थानों तक बढ़ाया गया है।

राष्ट्रीयसमाचार

पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी (वीआर) वीडियो लांच किया

- भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने गूगल इंडिया के सहयोग से आज अतुल्य भारत <https://t.co/H1VdcNXBUR> पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी (वीआर) अनुभव वीडियो लांच किया। 360 डिग्री में अतुल्य भारत हम्पी, गोवा, दिल्ली एवं अमृतसर की यात्रा के जरिए एक अभूतपूर्व अनुभव प्रदान करता है और उन स्थानों तथा लोगों की खोज करता है, जो इनमें से प्रत्येक प्रतिष्ठित भारतीय स्थलों को अतुल्यनीय बना देते हैं।

लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी एम के-4 परियोजना का तीसरा जहाज नौसेना में शामिल

- लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी एम के-4 परियोजना के तीसरे जहाज को आज पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। वाइस एडमिरल बिमल वर्मा, एवीएसएम, एडीसी, कमांडर इन चीफ-ए एण्ड एन कमान ने इस जहाज को आईएनएलएसयू एल53 के रूप में नौसेना में शामिल किया।
- गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजिनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता द्वारा डिजाइन और निर्मित यह जहाज देश की देसी जहाज निर्माण क्षमता की संभावना को उजागर करता है जो मेक इन इंडिया के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है। 1830 टन की विस्थापन क्षमता वाला एलसीयू एमके-4 जहाज जल और थल पर चलने योग्य है। यह अर्जुन, पी-72 जैसे मुख्य युद्ध टैंकों और अन्य बख्तरबंद वाहनों जैसे युद्ध सामग्री ढोने में सक्षम है।

भारतीय मानक ब्यूरो ने अखिल भारतीय आधार पर तरल क्लोरीन के लिए पहला लाइसेंस दिया

- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने अखिल भारतीय आधार पर तरल क्लोरीन के लिए मैसर्स गुजरात अल्कलीज़ एंड कैमिकल्स लिमिटेड को पहला लाइसेंस प्रदान किया है। तरल क्लोरीन के लिए लाइसेंस से बीआईएस प्रमाणीकरण मुहर योजना के अंतर्गत उद्योग को आसानी से मानक मुहर के साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलेंगे।
- आमतौर पर धातु के कंटेनर से तरल पदार्थ को वाष्पित करके गैस के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कागज, लुगदी, वस्त्र ब्लीचिंग, पानी के कीटाणुशोधन और रसायनों के निर्माण में किया जाता है।

पुरस्कार

सीएसआईआर को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (आईपी) पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया

- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) को "शीर्ष अनुसंधान एवं विकास संस्थान / पेटेंट और व्यावसायीकरण संगठन" श्रेणी में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (आईपी) पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है।

अंतरराष्ट्रीयसमाचार

भारत-अमेरिका को ज्वॉयंट डिफेंस प्रोजेक्ट पर करना चाहिए काम

- अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के शासनकाल के दौरान पेंटागन में तैनात एक पूर्व अधिकारी का कहना है कि अमेरिका द्वारा भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार नामित किया जा चुका है।
- दोनों सरकारों को एक कार्यक्रम तय करने और उसपर अलम करने की जरूरत है। यह फैसले दोनों सरकारों में उच्चस्तर पर लिये जाने की जरूरत है, जिसके

लिए समय सीमा तय हो और उसके आधार पर सरकारों के कामकाज का अकलन किया जा सके।

विज्ञान समाचार

वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटर के जरिए खुद से आकार बदलने वाले प्लास्टिक उत्पाद विकसित किए

- वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक की एक ऐसी समतल वस्तु बनाने के लिए किफायती 3डी प्रिंटर का इस्तेमाल किया है जिसे जब गर्म किया जाता है तो वह गुलाब, नाव और यहां तक कि खरगोश जैसे पूर्व निर्धारित आकार में ढल जाती है।

आर्थिक समाचार

ईपीएफओ और एनपीएस का डेटा: पिछले 6 महीनों में 22 लाख नई नौकरियां तैयार हुईं

- पिछले 6 महीनों (फरवरी तक) के दौरान, लगभग 22 लाख नई संगठित नौकरियां तैयार की गई हैं। ये ईपीएफओ और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) द्वारा जारी पेरोल डेटा द्वारा इंगित किए जाते हैं। इसके साथ ही, रोजगार के अवसर पर सरकार की स्थिति मजबूत हो रही है।

खेल समाचार

बीसीसीआई अर्जुन पुरस्कार के लिए की शिखर धवन और स्मृति मंधाना की सिफारिश

- अर्जुन पुरस्कारों के लिए बीसीसीआई ने शिखर धवन और महिला क्रिकेट टीम की अहम खिलाड़ी स्मृति मंधाना के नाम की सिफारिश की।